



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2017/आषाढ़ 28, 1939

No. 642]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2017/ASADHA 28, 1939

xg eky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

1 k-dk-fu- 934¼½—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, योद्धक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, योद्धक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल, योद्धक सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(क) सहायक उप निरीक्षक (आशुलिपिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ 4 में,—

- शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

- विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“स्तर —5 (रू० 29200 — 92300 /—)”;

(ख) हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ 4 में,— विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“स्तर -4 (रू0 25500 – 81100/-)”;

[फा. सं. 17 / 131 / 2016-कार्मिक / सीसुबल]

विनोद कुमार, अवर सचिव (कार्मिक-III)

ivli .k % मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ), तारीख 08 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गये और इसके पश्चात् अधिसूचना सा.का.नि. 545(अ), तारीख 31 जुलाई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2017

G.S.R. 934(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub- section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2013 namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Combatised Assistant Sub-Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) Recruitment Rules, 2013, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said post, its Classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Stenographer), in column (4)

(i) For heading, the following heading shall be substituted, namely:-
“Level in the pay matrix.”;

(ii) For the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
“Level-5 (Rs.29200 – 92300/-),”;

(b) against serial number 2 relating to the post of Head Constable (Ministerial), in column (4), the existing entry, following entry shall be substituted, namely:-

“Level-4 (Rs.25500 – 81100/-),”.

[F. No. 17/131/2016/Pers/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification G.S.R. 206(E), dated the 8th April, 2013 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 545(E), dated 31st July, 2014.